

प्रेस नोट दिनांक 09.06.2022 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

अर्न्तप्रदेशीय जहरखुरान/एटीएम का धोखाधड़ी करने वाले दो नफर अभियुक्तगण मय 60 ग्राम स्मैक व 30 अदद एटीएम विभिन्न बैंको के साथ गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा जहर खुरानी गैंग के दो नफर अभियुक्तगण **1. संदीप पुत्र दलवीर सिंह निवासी गंगनखेडी थाना हंसी जनपद हिसार हरियाणा उम्र- करीब 26 वर्ष । 2. राजेश कुमार पुत्र कर्मवीर निवासी हंसी रामसिंह कालोनी भिवानी रोड थाना हंसी जनपद हिसार हरियाणा उम्र-करीब 30 वर्ष** के कब्जे से कुल 60 ग्राम स्मैक व 30 अदद एटीएम कार्ड भिन्न भिन्न बैंको के खाताधारको के बरामद करते हुए आज दिनांक 09.06.2022 समय 11.10 बजे नहर पुलिया के पास मोहदीपुर से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0389/22 धारा - 8/21 NDPS ACT, मु0अ0सं0-390/22 धारा-8/21 NDPS ACT व मु0अ0सं0-0391/22 धारा-403/411/419/420 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

संक्षिप्त विवरण/ पूछताछ विवरण-

पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि हमलोग हरियाणा के रहने वाले है हमलोगो द्वारा दिल्ली 30प्र0 के राज्यो व सीमावर्ती प्रदेशों में चारपहिया वाहनों से भ्रमण कर लोगो का एटीएम कार्ड बदलकर उनके पैसो को निकालने का काम करते है । हम लोग द्वारा एटीएम रुम में पहले से पहुंचकर ऐसे व्यक्ति का इन्तजार किया जाता है जो एटीएम चलाना अच्छी तरह से न जानता हो उसके एटीएम को लेकर हमलोग स्वयं उसका पैसा कोड पूछकर उसको निकालकर दे देते है तथा अपने पास लिये एटीएम को उनके एटीएम को बारीकी से बदलकर उनको बदला हुआ एटीएम दे देते है और उनके बाकी पैसो को निकाल लेते है । उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यो व जिलो में घूम घूमकर कर स्मैक की विक्री भी करते है इनके पास से कुल 60 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक व 30 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंको के अलग अलग खाताधारको के साथ गिरफ्तार कर थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कराया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण **संदीप पुत्र दलवीर सिंह निवासी गंगनखेडी थाना हंसी जनपद हिसार हरियाणा** से पूछताछ करने पर बताया कि मै अपने साथी राजेश के साथ मिलकर नशीला पदार्थ लोगो को खिलाकर एटीएम कार्ड का पासवार्ड जानकर व उनका एटीएम कार्ड धोखे से बदलकर उनको एटीएम कार्ड से पैसे निकालकर अपना अपना जीवोपार्जन करते है । इनके अन्य आपराधिक इतिहास जानकारी की जा रही है । मुकदमा लिखकर जेल भेजा जा रहा है ।

बारामदगी- 60 ग्राम स्मैक व 30 अदद एटीएम कार्ड भिन्न भिन्न बैंको के खाताधारको के ।

अपराधिक इतिहास:-

1. **संदीप पुत्र दलवीर सिंह निवासी गंगनखेडी थाना हंसी जनपद हिसार हरियाणा**
 - I. मु0अ0सं0 389/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
 - II. मु0अ0सं0-391/2022 धारा-403/411/419/420 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी- 32 ग्राम स्मैक पाउडर व 15 अदद भिन्न भिन्न खाता धारको के एटीएम कार्ड

2. राजेश कुमार पुत्र कर्मवीर निवासी हंसी रामसिंह कालोनी भिवानी रोड थाना हंसी जनपद हिसार हरियाणा

I. मु0अ0सं0-390/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

II. मु0अ0सं0-391/2022 धारा-403/411/419/420 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी:- 28 ग्राम स्मैक पाउडर और 15 अदद एटीएम भिन्न खाता धारको के एटीएम कार्ड

गिरफ्तारी का स्थान /समय -:

नहर पुलिया के पास मोहदीपुर, दिनांक 09.06.2022 समय करीब 11.10 बजे

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रुद्र प्रताप सिंह चौकी प्रभारी मोहदीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अरुण कुमार सिंह चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 अवनीश कुमार पाण्डेय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. हे0का0 मोहसीन खान थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. का0 सौरभ गिरी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
7. का0 राहुल शाह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर